



Ref. No.: LIC/SE/2023-24/184

Date: February 09, 2024

To,
The Manager
Listing Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Tower,
Dalal Street,
Mumbai-400001
Scrip Code: 543526

The Manager
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot C/1,
G Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai-400051
Scrip Code: LICI

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement – Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023.

The Board of Directors in its Meeting held on February 08, 2024 inter alia, has approved the Unaudited (Standalone and Consolidated) Financial Results of Life Insurance Corporation of India (“the Corporation”) for the quarter and nine months ended on December 31, 2023. The said Unaudited Financial Results in the prescribed format are published in the Business Standard (Hindi and English), Navshakti (Marathi) and Free Press Journal (English) on February 09, 2024. A copy of the results published is attached herewith.

Please take the above information on record and arrange for its dissemination. A copy of this intimation is also being made available on Corporation’s website at www.licindia.in.

Yours faithfully,

For Life Insurance Corporation of India

(Anshul Kr. Singh)
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: a/a

Brand wars: It's SRK vs Sunny Deol on cement turf

Celebrities promote an industry evolving with rising demand

AMRITHA PILLAY
Mumbai, 8 February

After "The Great Khali" and before him Big B put their weight behind it, the Indian cement industry has brought on board two other celebrities to solidify its growth.

Of the top four companies, which collectively hold more than half of India's market share, two have pitted Shah Rukh Khan and Sunny Deol against each other. One of them, Shree Cement, has also revamped its brand identity, with 'Bangur' as its master brand.

The industry's renewed emphasis on its reach and image mirrors two trends: the anticipated robust growth in cement demand and the shift in its consumer profile. India's cement demand is projected to rise about 8 per cent this financial year over the last.

During a recent investor call, top executives from Shree Cement informed analysts about Bollywood actor Sunny Deol being appointed the brand ambassador. The executives said that with Deol, they had successfully introduced a disruptive advertising campaign to the market. Deol is shown breaking walls in a Shree Cement commercial until he encounters his match in a wall built with 'Bangur Cement,' Shree's new brand name.

Shree Cement's play on Deol's macho image is a classic manoeuvre in the metaphorical advertising playbook of the cement industry. Shree Cement's closest competitor, Adani's ACC-Ambuja Cements, had reintroduced Westler Dalip Singh Rana (The Great Khali) in its commercials last year, emphasising the brand's core positioning

of 'durability.' UltraTech Cement, the country's largest cement manufacturer, has, meanwhile, adopted a less conventional approach.

In January, UltraTech Cement launched its new TV commercial with Shah Rukh Khan, focusing on India's growth story. Khan, known for

trends for cement makers in the country. While individual home-buyers still constitute the major share, the highest growth is expected to come from India's infrastructure story. Industry estimates suggest that as of 2022-23 (FY23), rural housing contributed 37 per cent to India's total cement demand. However, this share is anticipated to decrease to 33 per cent by the end of the current decade. In contrast, infrastructure is expected to increase its share to 29 per cent from the current 23 per cent, while the share of urban housing is projected to marginally reduce to 28 per cent from 30 per cent in the same period.

All these indicators point to urbanisation and a shift in the consumption pattern of cement in India, from individual home builders to large contractors. This is not the first instance of cement makers bringing on board celebrities from the film world. Bollywood veteran Amitabh Bachchan was earlier associated with Binani Cement, and has endorsed Wonder Cement in the recent past.

For FY23, 13 of India's listed cement companies collectively spent ₹3,076 crore on such branding activities. Among them, UltraTech Cement remained the largest spender at ₹1,296.09 crore. It marked a 16 per cent increase from a year ago, while companies such as Dalmia Cement, Sagar Cement and Prism Johnson each witnessed a surge of 30 per cent or more in promotional and related activity expenditures.

While UltraTech has not disclosed the cost of its latest celebrity endorsement, in a recent analyst call, Atul Daga, its chief financial officer, assured analysts that all payments due to Khan had been met in the quarter ending December 2023.

STARSTUCK



AMITABH BACHCHAN endorses Wonder Cement



SUNNY DEOL promotes Shree Cement



SHAH RUKH KHAN is the new face of UltraTech Cement

his romantic hero image, stands in stark contrast to the 'macho' choices made by other cement brands.

Business and brand-strategy expert Harish Bijoor views UltraTech and Khan as a fitting pairing. "Shah Rukh is a wide-spectrum swathe," he said, highlighting that UltraTech caters to a diverse audience, and Khan appeals across various segments, including cement users, masons, contractors, engineers and end home-buyers.

UltraTech's messaging, "Banega India, toh Badhega India (If India builds, it will grow)", departing from strength and leaning towards India's growth narrative, reflects the evolving demand

Personal Finance,
Insight Out



Personal Finance,
Monday to Saturday

To book your copy, sms **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
Central Office: Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400021
(IRDAI Reg. No. 512 dated 01.01.2001)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 31ST DEC. 2023 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ in lakh)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at		Nine months ended as at		Year Ended as at
		31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Premium Income (Gross) ¹	1,17,63,894.38	1,12,54,743.13	3,24,50,208.03	3,44,20,057.98	4,76,63,279.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	9,53,092.02	6,37,681.74	27,39,216.61	22,88,998.63	36,08,093.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) ²	9,53,092.02	6,37,681.74	27,39,216.61	22,88,998.63	36,08,093.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	9,46,898.71	6,34,871.49	27,13,425.50	22,80,585.17	35,99,664.60
5	Equity Share Capital (Paid-up)	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve and fair value change account)	65,35,395.14	26,92,884.84	65,35,395.14	26,92,884.84	40,10,087.18
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each) (for continuing and discontinued operations)-					
	1. Basic:	14.97	10.04	42.90	36.06	56.91
	2. Diluted:	14.97	10.04	42.90	36.06	56.91

Key number of Standalone Results of the Corporation are as under:

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at		Nine months ended as at		Year Ended as at
		31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
1	Premium Income (Gross) ¹	1,17,22,263.85	1,12,03,669.53	3,23,20,922.22	3,42,70,427.40	4,74,66,813.63
2	Profit before tax	9,49,873.26	6,35,598.03	27,14,898.94	23,03,492.22	36,45,678.15
3	Profit after tax	9,44,441.68	6,33,419.53	26,91,314.49	22,96,957.83	36,39,738.99

Notes:

- Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
- Net Profit / (Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account).
- The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Corporation's website (www.licindia.in).
- The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

R. DORAISWAMY
Managing Director
(DIN: 10358884)

Mumbai
February 08, 2024

IN BRIEF

Irdai proposes revising coverage to increase insurance penetration

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) has proposed raising the mandatory coverage under Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations' norms in an effort to achieve the objective of "insurance for all". In the exposure draft of Rural, Social Sector and Motor Third Party Obligations Regulations, 2024, the Irdai said that a new strategy and fresh approach have been devised to boost insurance penetration in the country. The minimum number of lives to be covered by all life insurers, in all gram panchayats and India will be 30 per cent in each gram panchayat subject to a minimum of 25,000 gram panchayats as driven by the lead insurer in the first year. This increases to 40 per cent lives subject to a minimum 50,000 gram panchayats and 50 per cent lives subject to a minimum of 75,000 gram panchayats in year 2 and 3, respectively.

AATHIRA VARIER

India rejects allegations of interference in Canada elections

The government on Thursday strongly rejected as "baseless" allegations of its interference in Canadian elections and asserted that the core issue has been Ottawa's meddling in New Delhi's internal affairs. According to Canadian media reports, Canada's federal commission of inquiry into foreign interference is looking to examine allegations of meddling by India in the last two general elections. "We have seen media reports about the Canadian commission enquiring into... We strongly reject all such baseless allegations of Indian interference in Canadian elections," External Affairs Ministry Spokesperson Randhir Jaiswal said. The Canadian federal commission's terms of reference is primarily to examine the possible interference by China, Russia and other foreign states or non-state actors in the 2019 and 2021 federal elections, the *C7V News* reported. The allegations against India came amid a severe downturn in ties between the two countries.

PTI

Alstom starts driverless trainsets production for Chennai metro

Alstom, a global leader in smart and sustainable mobility, on Thursday commenced the production of its world-class Metropolis trainsets for the Chennai Metro Phase II from its state-of-the-art manufacturing facility in Sri City. This order aims to deliver 36 metro trainsets, each comprising of three cars, and capable of operating at a top speed of 80 kilometre per hour (kmph). These trains are designed to run on the 26 km corridor, a segment of Phase-II linking Poonamallee Bypass to Light House via 28 stations (18 elevated and 10 underground). The production was commenced at a commemorative ceremony led by leaders from Chennai Metro Rail And Alstom India. The project is valued at 124 million euros, which also includes training of the personnel to Chennai Metro for operation and maintenance. With 25 KV power supply for optimal energy efficiency, Alstom's Metropolis metros will ensure safe and reliable passenger transport for over 11 million citizens of the city.

BS REPORTER

SANDHAR

Growth. Motivation. Better Life

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED



CIN: L74999DL1987PLC029553

Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029

Tel: 0124 - 4518900

E-mail: investors@sandhar.in

Website: www.sandhargroup.com



EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2023

Sl. No.	Particulars	Consolidated (₹ in lakhs, except per equity share data)				Standalone (₹ in lakhs, except per equity share data)			
		Quarter ended		Nine months ended	Year ended	Quarter ended		Nine months ended	Year ended
		31 December 2023	31 December 2022	31 December 2023	31 March 2023	31 December 2023	31 December 2022	31 December 2023	31 March 2023
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited
1	Revenue from Operations	88,952.29	72,255.54	2,60,327.41	2,90,890.73	69,478.46	60,039.36	2,02,261.57	2,39,739.76
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	3,803.39	2,724.44	10,225.76	10,427.68	4,669.87	3,672.32	11,496.10	11,699.33
3	Net Profit for the period (before tax after exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	3,866.85	2,708.43	10,380.04	10,036.40	4,669.87	3,672.32	11,496.10	11,395.00
4	Net Profit for the period (after tax, exceptional item and share of profit/ (loss) in joint ventures)	2,536.54	1,975.86	7,439.73	7,355.66	3,363.97	2,676.30	8,493.03	8,377.92
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income/ (Loss) after Tax)	2,702.35	2,233.38	7,715.64	7,566.54	3,362.93	2,623.06	8,523.71	8,244.19
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07
7	Total Reserves				86,026.12				86,865.21
8	Earnings Per Share (Face value of ₹10/- per share) (not annualised for quarter/ nine months)								
	1. Basic:	4.21	3.28	12.36	12.22	5.59	4.44	14.11	13.92
	2. Diluted:	4.21	3.28	12.36	12.22	5.59	4.44	14.11	13.92

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter and Nine months ended 31 December 2023 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and Nine months ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on Company's website at www.sandhargroup.com.

Place: Gurugram (Haryana)
Date: 8 February 2024

For Sandhar Technologies Limited
JAYANT DAVAR
Co-Chairman and Managing Director

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोक सभा में पेश किया श्वेत पत्र

सुधार के दम पर शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में भारत

रुचिका चित्रवंशी और श्रेया नंदी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था पर एक 'श्वेत पत्र' संसद में पेश किया जिसमें कोविड टीकाकरण, खुले में शौच की समस्या को खत्म किए जाने से लेकर ई-श्रम पोर्टल और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सुधार एजेंडे को रेखांकित किया गया। इसमें कहा गया, 'तेजी से काम पूरा करने के बजाय हमने आने वाले दशकों में आर्थिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए साहसिक सुधार किए। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 में जब से सत्ता संभाली है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक सुधार हुए हैं जिसके चलते अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत हुई है।'

करीब 59 पृष्ठों के इस श्वेत पत्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संग्रम) बनाम राजग सरकार के अंतिम दो दशकों की तुलना की गई और संग्रम की महत्त्वपूर्ण सुधार करने में नाकाम रहने के लिए आलोचना की।

इस श्वेत पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों का जिक्र किया गया जिनमें एक राष्ट्र, एक बाजार के लिए जीएसटी, राजस्व संग्रह में सुधार के लिए कर सुधार, आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण भूमि प्रबंधन के लिए स्वामित्व के जरिये भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण और लोगों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना भी इसमें शामिल है।

श्वेत पत्र में कहा गया कि सुधारों के बलबूते ही महज एक दशक में ही भारत आर्थिक रूप से मजबूत शीर्ष पांच देशों के गुट में शामिल हो गया। इसमें यह भी कहा गया कि संग्रम सरकार ने जो अतिरिक्त नियंत्रण किए थे उन्हें राजग के दौर में बेहद तार्किक बनाया गया।

मिसाल के तौर पर संग्रम सरकार ने तटीय क्षेत्रों में अस्थायी और टिकाऊ पर्यटन सुविधाओं के



लोक सभा में गुरुवार को 'श्वेत पत्र' पेश करती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

फोटो-पीटीआई

केंद्र ने हटाई आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएं

केंद्र सरकार ने कहा कि उसकी नीतियों पूर्ववर्ती संग्रम सरकार से बिल्कुल अलग हैं। यह सरकार के बुनियादी ढांचे पर खर्च से देखा जा सकता है, जो उसके बजट खर्च का लगभग एक तिहाई है, जबकि वर्ष 2014 से 2014 के बीच यह बजट का 16 प्रतिशत ही रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तैयार श्वेत पत्र में कहा गया है कि उन दस वर्षों में सार्वजनिक निवेश से होने वाले पूंजीगत खर्च को हतोत्साहित किया गया। इससे दीर्घ अवधि के लिए अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई और वृद्धि की संभावनाएं भी प्रभावित हुईं। कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत खर्च वित्त वर्ष 2004 के 31 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2014 में 16 प्रतिशत पर आ गया। श्वेत पत्र में कहा गया कि संग्रम सरकार के कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था में आपूर्ति श्रृंखला बहुत धीमी रही। अंतरराष्ट्रीय मॉड्रिक फंड अधिकारियों और 2013 में कैबिनेट सचिव के बयानों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि नियमों की अस्पष्टता के चलते आधारभूत ढांचे के

लिए मंजूरी प्रक्रिया में देर होती थी तथा भ्रष्टाचार के कारण बड़ी परियोजनाओं में कानूनी जांच-पड़ताल में उलझी रहतीं और इस तरह उन्हें लागू करने की प्रक्रिया लंबी चलती। इसके उलट मौजूदा सरकार के पिछले दस वर्षों में बुनियादी ढांचे परियोजनाओं में बहुत तेजी आई है। इससे सड़क, रेल, पत्तन और विमानन जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली।

राजग सरकार के श्वेत पत्र में कोयला, दूरसंचार जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों के लिए आवंटन और बिजली व्यवस्था में सुधार पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछली सरकार की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए उसे कई सुधारवात्मक कदम उठाए, ताकि प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिले। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री के सहज बिजली हर घर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक गांव और घर बिजली से रोशन हो चुका है।

वीएस

निर्माण मसलन होटलों और रिजॉर्टों के निर्माण प्रतिबंधित किया था लेकिन राजग सरकार के कार्यकाल में इसकी अनुमति दे दी गई।

अर्थव्यवस्था में मजबूती

श्वेत पत्र में कहा गया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी), निवेश स्थिर रहा और देश की मुद्रा भी वैश्विक हालात की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर पाई। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में

भी अच्छी-खासी तेजी देखी गई।

इस पत्र में कहा गया कि संग्रम सरकार के कार्यकाल के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी) पर अति निर्भरता के चलते यह वित्त वर्ष 2004 से लेकर वित्त वर्ष 2014 के दौरान 21.1 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर से बढ़ी। वहीं दूसरी ओर राजग के कार्यकाल के दौरान वित्त वर्ष 2023 में खत्म हुई 9 साल की अवधि के दौरान इसीवर्ष सालाना 4.5 फीसदी की दर से बढ़ी।

श्वेत पत्र में कहा गया, 'इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वर्ष 2013 में हमारी अर्थव्यवस्था बेहद असुरक्षित स्थिति में थी जब अमेरिकी डॉलर में उछाल देखी गई। वर्ष 2011 और 2013 के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में 36 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली।'

सकल घरेलू उत्पाद में भारत के औसत चालू खाता घाटे में वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2023 के बीच 1.1 प्रतिशत की कमी आई।

केंद्र के खिलाफ एलडीएफ का प्रदर्शन

केरल के वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के नेताओं, सांसदों ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुआई में केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। विजयन ने केंद्र सरकार पर राज्यों को कर में उनका हिस्सा नहीं देने तथा विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों के जरिये सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, नेशनल कॉन्फ्रेंस

के नेता फारूक अब्दुल्ला, द्रमुक नेता तिरुचि शिवा और पलनीवेल त्यागराजन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विजयन ने अपने संबोधन में इन आरोपों को भी खारिज किया कि इस प्रदर्शन से उत्तर-दक्षिण के बीच खाई बड़ेगी। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यहां इसलिए हैं कि राज्य के लोगों के हितों पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा, 'हम सभी



केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन

इसके खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराने और भारत के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए एक साथ आए हैं।'

भाषा



LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Central Office: Yogakshema, Jeevan Bima Marg, Mumbai - 400021 (IRDAI Reg. No. 512 dated 01.01.2001)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE NINE MONTHS ENDED 31ST DEC. 2023 (IN RESPECT OF TOTAL BUSINESS)

(₹ in lakh)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at		Nine months ended as at		Year Ended as at
		31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Premium Income (Gross) ¹	1,17,63,894.38	1,12,54,743.13	3,24,50,208.03	3,44,20,057.98	4,76,63,279.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	9,53,092.02	6,37,681.74	27,39,216.61	22,88,998.63	36,08,093.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) ²	9,53,092.02	6,37,681.74	27,39,216.61	22,88,998.63	36,08,093.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	9,46,898.71	6,34,871.49	27,13,425.50	22,80,585.17	35,99,664.60
5	Equity Share Capital (Paid-up)	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve and fair value change account)	65,35,395.14	26,92,884.84	65,35,395.14	26,92,884.84	40,10,087.18
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each) (for continuing and discontinued operations)-					
	1. Basic:	14.97	10.04	42.90	36.06	56.91
	2. Diluted:	14.97	10.04	42.90	36.06	56.91

Key number of Standalone Results of the Corporation are as under:

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at		Nine months ended as at		Year Ended as at
		31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
1	Premium Income (Gross) ¹	1,17,22,263.85	1,12,03,669.53	3,23,20,922.22	3,42,70,427.40	4,74,66,813.63
2	Profit before tax	9,49,873.26	6,35,598.03	27,14,898.94	23,03,492.22	36,45,678.15
3	Profit after tax	9,44,441.68	6,33,419.53	26,91,314.49	22,96,957.83	36,39,738.99

Notes:

- Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
- Net Profit / (Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account).
- The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Corporation's website (www.licindia.in).
- The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

Mumbai
February 08, 2024

R. DORAISWAMY
Managing Director
(DIN: 10358884)

कांग्रेस का 'ब्लैक पेपर'



कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 10 साल की 'विफलताओं' को जनता के समक्ष उजागर करने के मकसद से गुरुवार को एक 'ब्लैक पेपर' जारी किया तथा सरकार पर समाज के सभी वर्गों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। पार्टी ने इस 'ब्लैक पेपर' में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं की स्थिति और कई अन्य मुद्दों पर सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया है। उसने इसे '10 साल, अन्याय काल' का नाम दिया है।

पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यह 'ब्लैक पेपर' जारी किया और कहा कि देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस 2024 में देश को भाजपा के 'अन्याय के अधिकार' से बाहर निकालेगी। कांग्रेस ने यह 'ब्लैक पेपर' ऐसे समय जारी किया है जब सरकार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संग्रम) के 10 साल के कार्यकाल पर एक 'श्वेतपत्र' जारी करने की घोषणा की। खरगे ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर उनकी विफलताएं छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे में इस सरकार के खिलाफ 'ब्लैक पेपर' लाने का फैसला किया गया। खरगे ने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो अपनी विफलताओं को छिपाते हैं। वहीं, जब हम सरकार की असफलताओं के बारे में बोलते हैं, तब उसे महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए हम 'ब्लैक पेपर' निकालकर जनता को सरकार की विफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं।'

भाषा

All Time High

>15000 Cr. >1000 Cr.

Turnover PAT

In First 9 Months of FY 23-24

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)
(A Navratna CPSE)

RVNL IN US, YOU TRUST

"राहें दुर्गम पर हम सक्षम, हम है गति विकास की।"

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त अवधि हेतु एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण

(₹. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही		समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष		
		31-12-2023	30-09-2023	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2022	31-03-2023	31-12-2023	30-09-2023	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2022	31-03-2023
		(अलेखापरीक्षित)			(लेखापरीक्षित)			(अलेखापरीक्षित)			(लेखापरीक्षित)		
1.	प्रचालनों से राजस्व	4675.85	4909.79	5010.67	15031.89	14560.32	20281.57	4689.33	4914.32	5012.09	15175.22	14561.74	20281.57
2.	अन्य आय	326.45	296.45	283.84	903.27	742.70	1003.94	327.64	296.02	280.91	905.27	740.42	996.44
3.	कुल आय	5002.30	5206.24	5294.51	15935.16	15303.02	21285.51	5016.97	5210.34	5293.00	16080.49	15302.16	21278.01
4.	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	428.94	454.66	406.00	1360.14	1162.87	1644.38	432.53	455.40	403.95	1367.08	1161.28	1639.17
5.	कर पश्चात लाभ (पीएटी)	325.98	370.09	341.02	1029.63	922.69	1267.97	358.57	394.42	382.42	1096.08	1061.30	1341.75
6.	अवधि/वर्ष हेतु कुल सम्मिलित आय/(हानि)	325.92	369.93	342.83	1029.44	922.55	1268.88	358.51	394.26	384.23	1095.89	1062.16	1342.68
7.	इक्विटी शेयर पूंजी	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02	2085.02
8.	संचय (पुनर्मूल्यन संचय छोड़कर)	-	-	-	-	-	4394.13	-	-	-	-	-	5161.18
9.	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)	1.56	1.77	1.64	4.94	4.43	6.08	1.72	1.89	1.83	5.26	5.09	6.44
	मूल	1.56	1.77	1.64	4.94	4.43	6.08	1.72	1.89	1.83	5.26	5.09	6.44
	ननुकृत	1.56	1.77	1.64	4.94	4.43	6.08	1.72	1.89	1.83	5.26	5.09	6.44

*31.12.23, 30.09.23 और 31.12.22 को समाप्त तिमाही और 31.12.23 और 31.12.22 को समाप्त नौमाही के लिए ईपीएस वार्षिक नहीं किया गया है

- नोट :
- उपरोक्त एकल/समेकित वित्तीय परिणामों का पुनरीक्षण और सुझाव लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा उनकी दिनांक 8 फरवरी, 2024 को सम्पन्न बैठक में किया गया है।
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 (संशोधित) के विनियम 33 के तहत आवश्यक है, कंपनी के वार्षिक लेखा परीक्षणों ने 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त वित्तीय परिणामों की सौमित्र समीक्षा की है।
 - एकल/समेकित वित्तीय परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) के नियम 3 के साथ पठित हैं। संशोधन नियम, 2016 और लागू सीमा तब तक अन्य मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रथाएं और नीतियां।
 - कंपनी/समूह एक एकल प्रतिवेदन प्रचालन खंड 'रेल अवसंरचना का विकास' में परिचालन करता है। अतः आईएनडी एसएस 108 - प्रचालन खंड के अनुसार कोई प्रथम प्रचालन खंड नहीं है।
 - आयकर अधिनियम, 1961 (नई कर व्यवस्था) की धारा 115बीए की शुरुआत के अनुसार, कंपनी के पास वर्तमान में लागू दर के मुकाबले 22% की कम दर और 30% से अधिक अधिभार और उपकर पर कोर्पोरेट आयकर का भुगतान करने का विकल्प है। 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से नई कर व्यवस्था अपनाए जाने का फैसला किया है। तदनुसार, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माही के लिए वर्तमान कर दर 30 सितंबर, 2023, 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ माही के साथ-साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए कर दर के साथ तुलनीय नहीं है।

- 'कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड (केआरसीएल) के संबंध में, आरवीएनएल भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के लिए संहिता के पैरा 1137 में दिए गए विस्तृत अनुमान/संशोधित अनुमान/पूर्णा अनुमान के अनुसार काम की कुल लागत के 5% की दर से विभागीय शुल्क के लिए हकदार है। आरवीएनएल को केआरसीएल से अनुबंध संबंधी दायित्वों से अन्य छूटों के अलावा उपरोक्त विभागीय प्रभारों की छूट के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। केआरसीएल द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी के प्रबंधन ने उक्त विभागीय प्रभारों के दावे को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विषय वस्तु की विस्तृत समीक्षा के लिए लंबित रखने का निर्णय लिया है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समेकित परिणाम फिर से घोषित किए गए हैं, जिसमें 78.92 करोड़ रुपये की कमी देखी गई है। यह समायाज एएसपीवी के अंतिम और लेखापरीक्षित वित्तीय के बीच अंतर को दर्शाता है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय परिणामों का अंतिम रूप देने के बाद प्राप्त हुए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एएसपीवी में लाभ की हिस्सेदारी की गणना अनंतिम खातों के आधार पर की गई थी।
- पूर्व अवधियों/वर्ष के आंकड़े, चालू अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाए रखे गए हैं, जहां आवश्यक है, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।
- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और अन्य प्रकटीकरण अधेष्टाएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए तिमाही हेतु एकल/समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का संक्षिप्त विवरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.rvnl.org पर उपलब्ध है।

कृते एवं हिते रेल विकास निगम लिमिटेड
हस्ता/-
प्रतीय गौड़
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07243986

From #LocalRailinfra to #GlobalAllinfra

रेल विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, अग्रस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली - 110066

सीआईएन : L74999DL2003GOI18633, ईमेल : investors@rvnl.org

@rvnl_official

@RailVikas

rvnl_official

Rail Vikas Nigam Limited


rvnl_official

Rail Vikas Nigam

Boy chasing kite falls from terrace in Mira Road, dies

Mira-Bhayandar: An 11-year-old boy lost his life after falling off the third-floor terrace of his building in Mira Road while chasing a kite on Tuesday evening. In an apparent attempt to chase and get the kite, the boy Hamza Qureshi

lost balance and fell in the gap between the two wings of the residential complex. The boy with serious head injuries was rushed to the government hospital and later shifted to a private hospital where he was declared dead.



CITY SKYWALKS: A FAILURE OF PLANNING AND NEGLECT

The failure of both the MMRDA and BMC to plan adequately and integrate modern technology into these structures reflects bureaucratic oversight

RUCHA KANOLKAR / Mumbai

Mumbai's ambitious skywalk project was meant to revolutionise pedestrian commute, offering a reprieve from the congested streets below. However, what was envisioned as a modern solution to urban congestion has turned into a glaring testament to bureaucratic ineptitude and neglect.

The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), spearheading the initiative, touted the skywalks as a panacea for crowded streets, seamlessly connecting railway stations and commercial hubs. Yet, a closer examination reveals a stark reality: a tale of shattered promises and unfulfilled potential.

A decade since the construction of the Cotton Green skywalk, it remains disconnected from its intended destination - the railway platforms. Sachin Padwal, a former Corporator, laments the skywalk's desolation, citing its eerie emptiness and the palpable fear it instils in pedestrians, particularly women. Despite years of appeals and promises, progress has been agonisingly slow, leaving commuters stranded and disillusioned.

Similarly, the Wadala skywalk, designed to bridge the gap between communities, has instead become a haven for illicit activities and urban decay. Hemant Patil, a resident, recounts tales of drug peddlers and the pervasive stench of neglect that permeates its corridors. Residents' complaints fall on deaf ears, with authorities engaging in a relentless game of bureaucratic ping-pong, shirking responsibility while the skywalk languishes in disrepair.

A visit reveals a grim reality. Broken tiles, rusted staircases, and a suffocating cloak of darkness envelop the Cotton Green skywalk, a stark contrast to the bustling thoroughfares below. In Wadala, the situation is no better, with hawkers commandeering valuable pedestrian space, transforming the skywalk into an impromptu marketplace. But the blight extends beyond aesthetics; it's a matter



Nana Chowk Tardeo



Cotton Green



Wadala

of safety and accessibility. The skywalks, far from being the elevated sanctuaries they were envisioned to be, have become perilous paths avoided by all but the most desperate commuters. The lack of lighting, unchecked illegal activities, and inaccessible entry points render them nothing more than neglected relics of failed urban planning. The skywalk connecting

Tardeo's Bhatia Hospital to Grant Road Railway Station stands as a desolate monument amidst the city's bustling chaos, with its promise of convenience overshadowed by the cacophony of traffic below. Despite the presence of escalators on Grant Road's Nana Chowk flyover, their disuse has rendered them little more than forgotten artefacts, repurposed as clotheslines by the very populace they were meant to serve. What was envisioned as a

seamless link between vital points of transit has devolved into obscurity, with commuters opting for the chaotic yet familiar paths below. Frustrated commuters demand the BMC to demolish dysfunctional skywalks overrun by drug peddlers, citing safety concerns and the lack of essential amenities like escalators and lifts. The failure of both the MMRDA and the BMC to plan adequately and integrate modern technology into these structures reflects bureaucratic oversight.

Commuters demand the BMC to demolish dysfunctional skywalks

Sr. No.		Particulars	Three months ended as at		Nine months ended as at		Year Ended as at
			31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
			Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Premium Income (Gross) ¹		1,17,63,894.38	1,12,54,743.13	3,24,50,208.03	3,44,20,057.98	4,76,63,279.16
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)		9,53,092.02	6,37,681.74	27,39,216.61	22,88,998.63	36,08,093.50
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) ²		9,53,092.02	6,37,681.74	27,39,216.61	22,88,998.63	36,08,093.50
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)		9,46,898.71	6,34,871.49	27,13,425.50	22,80,585.17	35,99,664.60
5	Equity Share Capital (Paid-up)		6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77	6,32,499.77
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve and fair value change account)		65,35,395.14	26,92,884.84	65,35,395.14	26,92,884.84	40,10,087.18
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each) (for continuing and discontinued operations)-						
	1. Basic:		14.97	10.04	42.90	36.06	56.91
	2. Diluted:		14.97	10.04	42.90	36.06	56.91

Key number of Standalone Results of the Corporation are as under:

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at		Nine months ended as at		Year Ended as at
		31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Mar-23
1	Premium Income (Gross) ¹	1,17,22,263.85	1,12,03,669.53	3,23,20,922.22	3,42,70,427.40	4,74,66,813.63
2	Profit before tax	9,49,873.26	6,35,598.03	27,14,898.94	23,03,492.22	36,45,678.15
3	Profit after tax	9,44,441.68	6,33,419.53	26,91,314.49	22,96,957.83	36,39,738.99

Notes:

- Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
- Net Profit / (Loss) before tax, for the period is Profit before tax as appearing in Profit and Loss Account (Shareholders' account).
- The above figures are an extract of the detailed format of Quarterly/ Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Corporation's website (www.licindia.in).
- The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

R. DORAISWAMY
Managing Director
(DIN: 10358884)

Mumbai
February 08, 2024



Mukand Ltd. has truly transformed. From a company that was deep in debt to one that's reduced its debt substantially through strategic interventions. Today, we're a company that's firmly on a profitable growth trajectory. We have substantially increased our high revenue stainless steel production. We have introduced progressive policies that encourage a healthy work life balance, making it one of the best workplaces in the manufacturing sector. Our continued focus and emphasis on achieving superior quality products, while harnessing the experience of our 1,400 plus strong workforce, and our commitment to the environment and community make us a truly formidable company that India can showcase.

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

Rs. in Crore

Particulars	Standalone Financial Results			Consolidated Financial Results		
	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended
	31-Dec-23	31-Dec-23	31-Dec-22	31-Dec-23	31-Dec-23	31-Dec-22
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total income from operations	1188.40	3960.15	1347.41	1176.68	3935.65	1330.47
Net Profit for the period before tax	23.53	83.48	20.13	21.91	83.78	15.77
Tax Expense (Charge) / Credit	(2.20)	(10.23)	(3.49)	(2.55)	(10.17)	2.98
Profit after tax for the period	21.33	73.25	16.64	19.36	73.61	18.75
Other Comprehensive Income (net)	(0.07)	(0.12)	(0.20)	(0.07)	(0.12)	0.20
Total Comprehensive Income	21.26	73.13	16.84	19.29	73.49	18.95
Paid-up Equity Share Capital - Face Value Rs. 10/- per Share	144.51	144.51	144.51	144.51	144.51	144.51
Reserves (excluding Revaluation Reserves) as per Audited Balance Sheet as at 31-Mar-23		736.97			709.27	
Earning per share of Rs. 10/- each (not annualised for the quarters)						
Basic and Diluted EPS (in Rs.)	1.48	5.07	1.15	1.34	5.09	1.30

NOTES TO ACCOUNTS:

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 8, 2024. The Auditors have carried out a Limited Review of these Results.
- Mukand Limited (the Company) has signed a Solar Power Purchase Agreement with Amplus Phoenix Energy Private Limited for 23.89 MWp Group Captive Solar Project for steel plant at Hospet, Karnataka. Main objective of this Project is to meet Company's energy requirement and contribute to making its steel making manufacturing processes and production greener and this will help the Company further in meeting its climate change commitments.
- Board of Directors of the Company, on the recommendation of the Audit Committee, has approved the Draft Scheme of Arrangement ("Scheme") amongst Mukand Sumi Metal Processing Limited ("MSMPL/ Demerged Company"), a Wholly Owned Subsidiary, and the Company and their respective shareholders & creditors pursuant to Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 with an Appointed Date of 1st April, 2024. The Scheme provides for demerger of Stainless Steel Cold Finished Bars & Wires activity of MSMPL into & with the Company. As a part of the Scheme, no shares shall be issued, since the Demerged Company is a wholly owned subsidiary of the Company. The Scheme shall be subject to sanctions and/or approvals, inter alia, by National Company Law Tribunal.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine months Financial Results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Results for the Quarter and Nine months ended 31st December, 2023 is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.mukand.com).
- Figures in respect of previous period have been regrouped / recast wherever necessary in case of the above results.

By Order of the Board of Directors
For Mukand Ltd.,
Niraj Bajaj
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: February 8, 2024



Regd. Office: Bajaj Bhawan, Jamnalal Bajaj Marg, 226, Nariman Point, Mumbai - 400 021. | Tel. No.: 022 6121 6666
Email ID: investors@mukand.com | Website: www.mukand.com CIN: L9999MH1937PLC002726



AGS Transact Technologies Limited

CIN: L72200MH2002PLC138213 | Website: https://www.agsindia.com

Registered Office: 601-602, B-Wing, Trade World, Kamala Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400 013

Statement of unaudited consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2023

(₹ in Millions)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31 December 2023	30 September 2023	31 December 2022	31 December 2023	31 December 2022	31 March 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income (including Other income)	3,840.16	3,886.33	4,248.02	11,520.10	12,725.84	17,075.12
2	Net (loss) / profit before tax	(227.52)	(711.93)	191.68	(929.43)	703.27	575.30
3	Net (loss) / profit after tax	(153.81)	(609.03)	124.38	(756.44)	523.23	369.62
4	Total comprehensive (loss) / income for the period / year	(130.61)	(602.98)	178.34	(714.87)	581.71	445.99
5	Equity share capital (Face value of ₹ 10 each)	1,210.26	1,204.91	1,202.97	1,210.26	1,202.97	1,204.91
6	Reserves (Other equity excluding Revaluation reserves)						4,145.67
7	Earnings per share (of ₹ 10 each)						
	Basic (₹)	(1.28)	(5.05)	1.04	(6.28)	4.35	3.07
	Diluted (₹)	(1.28)	(5.05)	1.01	(6.28)	4.25	3.01
		Not annualised	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Not annualised	Annualised

Notes:

- The above consolidated financial results of AGS Transact Technologies Limited ("the Company") and its subsidiaries (together referred to as "the Group") for the quarter and nine months ended 31 December 2023 have been reviewed by the Audit Committee and thereafter were approved by the Board of Directors at its meeting held on 07 February 2024. The statutory auditors of the Company have issued an unmodified review report. The consolidated financial results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable and information required in terms of Regulation 33 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing Regulations").
- The above is an extract of the detailed format of consolidated financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results of the Company is available on the Company's website www.agsindia.com and also on the website of BSE i.e. www.bseindia.com and NSE i.e. www.nseindia.com, where the shares of the Company are listed.
- The key information of the unaudited standalone financial results of the company are given below.

(₹ in Millions)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ended
		31 December 2023	30 September 2023	31 December 2022	31 December 2023	31 December 2022	31 March 2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income (including Other income)	2,716.90	3,063.74	3,139.92	8,456.26	9,262.19	12,387.83
2	Net (loss) / profit before tax	(327.70)	(469.97)	28.59	(861.15)	378.52	181.51
3	Net (loss) / profit after tax	(225.50)	(347.27)	16.10	(620.50)	302.49	148.77

For and on behalf of Board of Directors of
AGS Transact Technologies Limited
Sd/-

Mr. Ravi B. Goyal
Managing Director
(DIN:01374288)

Place: Mumbai
Date: 07 February 2024